

**Ref: STEX/Results/Published-2023-24**

**Date: 31.05.2023**

**BSE Limited**  
Department of Corporate Services-Listing  
PJ Towers, Dalal Street  
Mumbai- 400001

**National Stock Exchange of India Limited**  
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex  
Bandra (E) Mumbai- 400051

**Scrip Code- 539148**

**Symbol- SHIVALIK**

**Sub. : Copy of Publication for Audited Financial Results for the Quarter and year ended on 31.03.2023**

Dear Sir,

The Board of Directors at their Meeting held on 29.05.2023 adopted the Audited Financial Results of the Company for the quarter and year ended on March 31, 2023.

The copy of the results published in the Financial Express and Vir Arjun dated May 30, 2023 is enclosed.

This is for your information and records.

Kindly acknowledge the receipt.

Thanking You,

Yours truly,  
**For Shivalik Rasayan Limited**

**Parul Choudhary**  
**Company Secretary & Compliance Officer**  
**ACS-34854**

Encl: As above.



# नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का 9 साल का कार्यकाल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहा : सीएम

## संक्षिप्त समाचार

**वरिष्ठ पत्रकार आनंद गोस्वामी, विकास झा हुए सम्मानित, मीडिया कार्यालय, हरिद्वार में हुआ सम्मान**  
हरिद्वार, (वीओ)। ऋषिकुल स्थित प्रेस मीडिया कार्यालय के उद्घाटन के उपलक्ष्य में नेशनल यूनिन ऑफ जर्नलिस्ट्स, इंडिया, उत्तराखंड, हरिद्वार इकाई के सचिव एवं प्रेस क्लब हरिद्वार के सदस्य व हिंदुस्तान स्तंभ के संपादक वरिष्ठ पत्रकार आनंद गोस्वामी और कलम संवाद के संपादक पत्रकार विकास कुमार झा को प्रतीक चिह्न और फूलमाला पहनकर सम्मानित किया गया। उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वरिष्ठ पत्रकार आनंद गोस्वामी ने कहा कि पत्रकारिता के क्षेत्र में युवाओं का पदार्पण सुखद है। समय के साथ पत्रकारिता का स्वरूप बदला है। जिसे युवा पत्रकार बखूबी समझकर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में युवा पत्रकारों को प्रोत्साहन की जरूरत है। ताकि वे चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ सकें। उन्होंने मीडिया कार्यालय की टीम समेत अन्य युवा पत्रकारों को आदर्श पत्रकारिता के मापदंडों को स्थापित करते हुए निरंतर उन्नति के पथ पर अग्रसर रहने की शुभकामनाएं दी। पत्रकार विकास कुमार झा ने कहा कि युवा पत्रकारों में सीखने की ललक है और वे तेजी से नई चीजों को सीखते भी जा रहे हैं। डिजिटल मीडिया के दौर में युवा पत्रकार नई तकनीक के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तकनीक के विकसित होने से पत्रकारिता का कार्य थोड़ा आसान हुआ है, लेकिन चुनौतियां भी उसी तेजी के साथ आगे बढ़ी हैं। पत्रकारिता का भार युवाओं के कंधे पर है। यही युवा पत्रकार आगे चलकर पत्रकारिता के क्षेत्र में नाम रोशन करेंगे। इस मौके पर युवा पत्रकार गौरव कुमार ने कहा कि वे अपने वरिष्ठों के मार्गदर्शन में पत्रकारिता की मापदंडों के अनुसार स्वच्छ पत्रकारिता करने का प्रयास करेंगे। गौरव को आने कहा कि वरिष्ठ प्रकार अंनंद गोस्वामी विषय 19 सालों से लगातार पत्रिका के क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं इस दौरान उन्होंने दैनिक रॉयल बुलेटिन, सोमांत वार्ता, लोक सत्य, मद्रलैंड वाइस, अमर स्तंभ सहित अन्य प्रकाशकों में लेखन का कार्य निभाया है। वर्तमान में वे हिंदुस्तान स्तंभ के संपादक के तौर पर कार्य कर रहे हैं। वही विकास कुमार झा दैनिक सोएपन, अमर भारती, राष्ट्रीय स्वरूप, वीर अर्जुन, हिंदू, हिंदुस्तान, जनवाणी, सहित अनगिनत समाचार पत्रों में बखूबी लेखन का भार संभाला है। उन्होंने कहा कि मीडिया कार्यालय में पीयूष चौहान, दीपक चौहान, वैभव भाटिया, सनत शर्मा, अमित मंगोलिया, अनुभव बंसल, सुमित तिवारी, अमित बाणिया, विक्की सेनी सहित अन्य पत्रकार सक्षिप्य रूप से सहयोगी पत्रकारों की भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं।

**राज्यपाल ने हिन्दी पत्रकारिता दिवस की बधाई दी**  
नैनीताल, (वीओ)। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमोत सिंह (से नि) ने हिन्दी पत्रकारिता दिवस पर सभी मीडिया प्रतिनिधियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। हिन्दी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर जारी अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में पत्रकारिता देश की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। स्वतंत्रता आन्दोलन में हिन्दी पत्रकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। राज्यपाल कहा कि पत्रकार सैनिकों की तरह राष्ट्र के सच्चे प्रहरी होते हैं, समाज के अंदर फैली कुरीतियों के प्रति आम जनमानस को जागरूक कर पत्रकार राष्ट्र निर्माण में अपना अहम योगदान देते हैं।

**संत महापुरुषों को गुरु परंपराओं का निर्वहन करना चाहिए : महंत दयानंद मुनि**  
हरिद्वार, (वीओ)। उदासीन संगत फुलवारी शरीफ पटना बिहार के महंत दयानंद मुनि ने प्रेस क्लब में आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान कहा कि गुरु परंपराओं का निर्वहन संत महापुरुषों का करना चाहिए। संविधान के विपरीत कार्य से संतों की गरिमा को भी ठेस पहुंचती है। उन्होंने कहा कि गुरु परंपराओं का निर्वहन शिक्षित संत ही बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आश्रम मठ मंदिरों को लेकर देश भर में संतों की हत्याएं होना चिन्तनीय है। उन्होंने कहा कि कुछ भूमिकाओं आश्रम अखाड़ों को संपात की खुर्दबुर्द करने की नीयत से अपना संरक्षण संत समाज को दे रहे हैं। मठ मंदिरों एवं आश्रम अखाड़ों के संरक्षण संवर्द्धन के प्रयास सभी को मिलजुल कर करने होंगे। कुछ लोग पड़वंत्र के तहत गुरु परंपराओं में विघ्न डाल कर परंपराओं को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोगों से सचेत रहने की आवश्यकता है। संविधान सभी को मानना चाहिए। संत महापुरुषों की हत्याएं तत्काल बंद होनी चाहिए।

**गांव के निकट नजर आए दो गुलदार, ग्रामीणों ने घरों में दुबकर बचाई जान**  
वीर अर्जुन संवाददाता  
कोटद्वार। रिखणीखाल प्रखंड के अंतर्गत ग्राम डल्ला में बीती रात ग्रामीणों को दो बाघ नजर आए। ग्रामीणों ने शोर मचा कर बाघ को गांव से दूर करने का प्रयास किया। लेकिन, बाघ ग्रामीणों की ओर बढ़ा। ग्रामीणों ने घर में दुबकर खुद की जान बचाई।

**उत्तर रेलवे निविदा सूचना**  
75 अर्जुन अखंड मंडल  
भारत के राष्ट्रपति की ओर से वरिष्ठ मंडल सामग्री प्रबंधक, उत्तर रेलवे, मुरदाबाद-244001 द्वारा सम्पन्नकार्यों से निम्नलिखित मद के लिए इलेक्ट्रोनिक्स निविदा प्रणाली के अंतर्गत नंबर की आपूर्ति हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्र. सं.	निविदा संख्या	माल का विवरण	मात्रा	बयाना सति मूल्य रु.	अनुमानित निविदा सूचने की तिथि
01	97226092 A	RDSO के अनुसार पोटेबल डी.सी. हलवाकर करने वाले सेट विनिश्चिता संख्या च/ वरसम/20, दिनांक 19.11.1992 या समान।	15	70450/- 3522300/-	28.06.2023

नोट पूर्ण विवरण एवं निविदा शर्तें वेबसाइट [www.ireps.gov.in](http://www.ireps.gov.in) पर उपलब्ध है। सभी इच्छुक निविदाकर्ताओं को ई देडर में भाग लेने तथा पंजीकरण करने के लिए भारत सरकार आई टी अधिनियम 2000 के तहत प्राधिकृत प्रमाणित एजेंसी से क्लसा III डिजिटल प्रमाण पत्र (यदि पहले से प्राप्त नहीं किया है) प्राप्त मान्य होगा। मैन्युअल निविदा स्वीकृत नहीं की जायेगी।

निविदा सं. 19/वरी म 0 सा 0/ 2023  
दिनांक : 29.05.2023

1629/2023

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

**वीर अर्जुन**

**देहरादून में समाचार पत्र प्राप्त करने एवं विज्ञापनों के लिए संपर्क करें। राकेश कुमार सैनी मो.9917203013,8449957115**

**वीर अर्जुन की प्रतियां प्राप्त करने के लिए संपर्क करें:-**

**देहरादून:-** सूरज न्यूज एजेंसी मो.-9917203013

**रुड़की:-** चन्द्र न्यूज एजेंसी प्रो. - श्री चन्द्रभान, दुकान नं. 11, पुराना रेलवे रोड, मकतुलपुरी रुड़की मो.- 9927069871

**हरिद्वार:-** आत्रे न्यूज एजेंसी प्रो. - श्री अनिल कुमार शर्मा ,जटवाड़ा पुल, हरिद्वार मो.- 9837177797

**ऋषिकेश:-** आजाद न्यूज एजेंसी प्रो. - श्री संजीव गुप्ता हरिद्वार रोड, ऋषिकेश मो. - 9837229222



कार्यक्रम को संबोधित करते सीएम पुष्कर सिंह धामी।

के तहत कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना हर क्षण देश सेवा के लिए समर्पित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सरकार का पूरा ध्यान विकास के नवरत्नों पर है। इसमें पहला रत्न- केदारनाथ-बद्रीनाथ धाम में 1300 करोड़ रुपये से पुनर्निर्माण का कार्य, दूसरा रत्न-

## वन विभाग कर्मचारी आवास के समीप महिला ने फांसी लगाकर दी जान

देहरादून। वन विभाग रेंज कार्यालय आशा रोड़ी के कर्मचारी आवास के पास में एक महिला द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

जानकारी के अनुसार सूचना पर थानाध्यक्ष क्लेमेट टाउन मय फोर्स के मौके पर पहुंचे तो पाया रेंज कार्यालय के सरकारी आवास वन दरोगा रोशन पत्नी अबरार के सरकारी आवास के बाहर निग्रोज्य वाहन पिकअप की रेलिंग पर शबम पत्नी राशद द्वारा चुन्नी से फांसी के तहत धर जा सके, इसके लिये विभिन्न शिक्षक संगठनों एवं न्यायालय में वाद से संबंधित पक्षों को आपसी सहमति बनाकर विभाग को सहयोग करने को कहा। इसके अलावा बोर्ड परीक्षाओं के परीक्षाफल एवं अटल उत्कृष्ट विद्यालयों की समीक्षा कर विभागीय अधिकारियों को ठोस कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिये।

सूबे के विद्यालयी शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह रावत ने आज विधानसभा स्थित कार्यालय कक्ष में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली। डा. रावत ने बताया कि सूबे में गुणवत्तापरक शिक्षा मुहैया कराने के लिये राज्य सरकार प्रतिबद्ध है, इसके लिये शिक्षा विभाग कई योजनाओं पर काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि विद्यालयी शिक्षा बोर्ड की परिषदीय परीक्षा-2023 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 467 छात्र-छात्राओं को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सम्मानित किया जायेगा। जिसकी तैयारी के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दे दिये गये हैं। शिक्षा विभाग में लम्बे समय से पदोन्नति के रिक्त पद जल्द से जल्द भरे जा सकें, इसके लिये विभिन्न शिक्षक संगठनों एवं न्यायालय में वाद से संबंधित पक्षों को आपसी सहमति बनाकर विभाग को सहयोग करने को कहा। इसके अलावा बोर्ड परीक्षाओं के परीक्षाफल एवं अटल उत्कृष्ट विद्यालयों की समीक्षा कर विभागीय अधिकारियों को ठोस कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिये।

सूबे के विद्यालयी शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह रावत ने आज विधानसभा स्थित कार्यालय कक्ष में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली। डा. रावत ने बताया कि सूबे में गुणवत्तापरक शिक्षा मुहैया कराने के लिये राज्य सरकार प्रतिबद्ध है, इसके लिये शिक्षा विभाग कई योजनाओं पर काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि विद्यालयी शिक्षा बोर्ड की परिषदीय परीक्षा-2023 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 467 छात्र-छात्राओं को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सम्मानित किया जायेगा। जिसकी तैयारी के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दे दिये गये हैं। शिक्षा विभाग में लम्बे समय से पदोन्नति के रिक्त पद जल्द से जल्द भरे जा सकें, इसके लिये विभिन्न शिक्षक संगठनों एवं न्यायालय में वाद से संबंधित पक्षों को आपसी सहमति बनाकर विभाग को सहयोग करने को कहा। इसके अलावा बोर्ड परीक्षाओं के परीक्षाफल एवं अटल उत्कृष्ट विद्यालयों की समीक्षा कर विभागीय अधिकारियों को ठोस कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिये।

## पत्रकारिता को लिया धारदार बनाने का संकल्प

देहरादून। उत्तराखंड पत्रकार यूनियन की देहरादून इकाई का हिन्दी पत्रकारिता दिवस समारोह में पत्रकारिता को धारदार बनाने का संकल्प लिया गया। सोमवार को उत्तराखण्ड प्रेस क्लब में आयोजित कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार जय सिंह रावत और गंगा असनोड़ा थपलियाल को सम्मानित किया गया। डीएवी (पीजी) कालेज में पत्रकारिता विभाग के डा. विमलेश हिमरी और डा. जितेंद्र को भी सम्मानित किया गया। वरिष्ठ पत्रकार निशीथ जोशी, डा. देवेन्द्र भस्मिन व डा. सुरेखा डंगवाल को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि दुर्ग निश्चिन्ता जगत अर्थर्न में फंस चुके हैं। अजय रहने वाली पत्रकारिता को बनाना हम सभी की जिम्मेदारी है। यह पत्रा सत्य (प्रेस ट्रुथ) दौर है। इसमें सच और बूढ़ के बीच अंतर करना आसान काम नहीं है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को स्वायत्त बनाना और इसको सिद्धा रखना बड़ी चुनौती है। शिक्षा जगत भी अंधड़ के इस दौर में बहुत दबाव में है। विद्यार्थियों पर खुद कमाई करने का दबाव है। मुख्य वक्ता वरिष्ठ

पत्रकार निशीथ जोशी ने कहा कि पत्रकारिता में योगदान बढावा जारी है। बदलाव के दोनों ही आयाम हैं। पेशेवर पत्रकारों को भी मीडिया के आर्थिक पक्ष को देखना ही पड़ेगा। इस दबाव में पत्रकारों को खुद को साबित करना होगा। पत्रकारिता में जहां एक ओर विश्वसनीयता घटी है वहीं इसमें इजाफा भी हुआ है। उन्होंने कहा कि हमें पत्रकारिता और पत्रकारों के स्तर का भी श्रेणीकरण करते रहना होगा। व्यवसायिकता के दबाव में मूल्यों को कायम रखना आसान नहीं है। बाजार, सरकारों का दबाव बढ़ने ही वाला है। वह बोले कि संपादकों को देहरे मापदंड से बनना चाहिए। मातहतों पर अनावश्यक प्रेशर बनाना हम लिहाज से गलत है। उन्होंने कहा कि

## गंगा दशहरा स्नान महत्वपूर्ण स्नान पर्व है : अजय सिंह

हरिद्वार, (वीओ)। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री अजय सिंह एवं अपर जिलाधिकारी(प्रशासन) ने सोमवार को ऋषिकुल ऑडिटोरियम में दिनांक 30 मई,2023 को गंगा दशहरा स्नान पर्व हेतु नियुक्त पुलिस/प्रशासनिक, जॉनल और सेंक्टर मजिस्ट्रेट की संयुक्त ब्रीफिंग में प्रतिभाग किया। व्यवस्था की दृष्टि से गंगा दशहरा स्नान पर्व के लिये पूरे मेला क्षेत्र को 11 जोन तथा 40 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री अजय सिंह ने ब्रीफिंग को सम्बोधित करते हुये कहा कि गंगा दशहरा स्नान पर्व काफी महत्वपूर्ण स्नान पर्व है, जिसमें काफी तादात में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावनायें हैं। उन्होंने कहा कि संपत रहते हुये श्रद्धालुओं के साथ हमेशा मुद्द व्यवहार करें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक स्नान पर्व की अपनी अला-अलग विशेषता के साथ ही हरेक स्नान पर्व का हर बार एक नया स्वरूप होता है, इसलिए इस बात का पूरा ध्यान रखा जाये।

**वीर अर्जुन संवाददाता**  
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को राजपुर रोड स्थित एक होटल में मीडिया से संवाद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की 09 साल की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह 09 साल का कार्यकाल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहा है। अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से समाज के हर वर्ग के लोगों के लिए उनके नेतृत्व में योजनाएं चलाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की वैश्विक पटल पर अलग पहचान बनी है। विदेश यात्राओं में जिस तरह उनका सम्मान होता है, यह हर एक भारतीय का सम्मान है। आज पूरी दुनिया भारत को नई आशाओं के रूप में देख रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देवभूमि उत्तराखण्ड से विशेष लगाव है। उनके मार्गदर्शन में पिछले 09 सालों में उत्तराखण्ड में हर क्षेत्र में तेजी से कार्य हुए हैं। भारत माला परियोजना, अल वेदर रोड, रेल कनेक्टिविटी, शिक्षा, चिकित्सा, इन्फ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी के क्षेत्र में राज्य में तेजी से कार्य हुए हैं। केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्य पर तेजी से कार्य चल रहा है। बद्रीनाथ में मास्टर प्लान

## मानसून से पूर्व की तैयारियों की आपदा प्रबंधन सचिव ने की समीक्षा

देहरादून। सचिव उत्तराखण्ड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण रंजीत सिन्हा की अध्यक्षता में सचिवालय स्थित डी.एम.एस.सी. सभागार में मानसून से पूर्व की तैयारियों को लेकर राज्य के समस्त जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की गई। बैठक में आईजी एस.डी.आर.एफ. रिडिमि अथवाल तथा अपर सचिव आपदा प्रबंधन सविन बंसल उपस्थित रहे। बैठक में राज्य स्तर के समस्त लाईन डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने भी प्रतिभाग किया।

सचिव रंजीत सिन्हा ने राज्य के संवेदनशील जनपदों सहित समस्त जिलों को मानसून आने से पहले की तैयारियों को लेकर सभी जिलाधिकारियों के साथ एक बैठक की। उन्होंने जिलाधिकारियों को जिलों में मॉक ड्रिल अभिवार्य रूप से संचर कर लिये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि संबंधित डिपार्टमेंट आपदा की स्थिति में जिलों से सम्पर्क बनाये रखने हेतु अपने एक सैनिजर ऑफिसर को नोडल अधिकारी नामित कर लें, जो समय से जिलों की समस्याओं को उचित स्तर पर

## वीर अर्जुन संवाददाता

देहरादून। उत्तराखंड पत्रकार यूनियन की देहरादून इकाई का हिन्दी पत्रकारिता दिवस समारोह में पत्रकारिता को धारदार बनाने का संकल्प लिया गया। सोमवार को उत्तराखण्ड प्रेस क्लब में आयोजित कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार जय सिंह रावत और गंगा असनोड़ा थपलियाल को सम्मानित किया गया। डीएवी (पीजी) कालेज में पत्रकारिता विभाग के डा. विमलेश हिमरी और डा. जितेंद्र को भी सम्मानित किया गया। वरिष्ठ पत्रकार निशीथ जोशी, डा. देवेन्द्र भस्मिन व डा. सुरेखा डंगवाल को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि दुर्ग निश्चिन्ता जगत अर्थर्न में फंस चुके हैं। अजय रहने वाली पत्रकारिता को बनाना हम सभी की जिम्मेदारी है। यह पत्रा सत्य (प्रेस ट्रुथ) दौर है। इसमें सच और बूढ़ के बीच अंतर करना आसान काम नहीं है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को स्वायत्त बनाना और इसको सिद्धा रखना बड़ी चुनौती है। शिक्षा जगत भी अंधड़ के इस दौर में बहुत दबाव में है। विद्यार्थियों पर खुद कमाई करने का दबाव है। मुख्य वक्ता वरिष्ठ

## यूसीसी के ड्राफ्ट पर भाजपा और कांग्रेस आमने-सामने

देहरादून। उत्तराखंड धामी सरकार द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए जो हाई पावर कमेटी बनाई गई है वह जून माह के अंत तक सरकार को अपना ड्राफ्ट सौंपने जा रही है लेकिन यूसीसी का ड्राफ्ट कमेटी सरकार को सौंप इससे पहले ही इस ड्राफ्ट को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने-सामने हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा का कहना है कि यूसीसी के जिस ड्राफ्ट को लेकर धामी सरकार ने इतना ढोल पीट रखा है उस बात को सरकार सार्वजनिक करे जिससे यह पता तो चल सके कि आखिरकार सरकार क्या करना चाहती है। उनका कहना है कि यूसीसी का मुद्दा इसलिए संवेदनशील है क्योंकि इसके दायरे में हर जाति धर्म और संप्रदाय का हर व्यक्ति आता है। उनका कहना है कि हर व्यक्ति का संवैधानिक

**Shivalik Rasayan Limited**  
Regd. Office: Village Kohupani, P. O. Chandanwari, Dehradun - 248007  
(CIN: L24237UR1979PLC005404)  
E-mail: cs@shivalikrasayan.com, Website: www.shivalikrasayan.com

**Extracts of Standalone and Consolidated Audited Financial Results for the Quarter and Year ended on 31.03.2023 (all figures are in Rs. Lacs, except EPS)**

Sl. No.	Particulars	Standalone		Consolidated			
		Quarter Ended	Year Ended	Quarter Ended	Year Ended		
1	Total income from operations (net)	2481.32	2690.64	9578.14	10129.24	2391.11	21845.78
2	Net Profit/ (Loss) for the period (before tax, exceptional and/or Extraordinary items)	249.35	519.45	1461.68	1886.22	3166.18	3695.64
3	Net Profit/ (Loss) for the period before tax (after exceptional and/or Extraordinary items)	330.69	540.22	1510.45	1935.54	2983.30	3425.24
4	Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after exceptional and/or Extraordinary items)	330.69	540.22	1510.45	1935.54	2983.30	3425.24
5	Total comprehensive income for the period (Comprising Profit/ (loss) for the period (after tax) and other Comprehensive income (after tax))	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Equity Share Capital	724.46	724.46	724.46	724.46	724.46	724.46
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)						
8	Earnings Per Share (of Rs. 5/- each) (for continuing and discontinued operation)	2.28	3.73	10.42	13.69	15.02	18.12
	Basic:	2.28	3.73	10.42	13.69	15.02	18.12
	Diluted:	2.28	3.73	10.42	13.69	15.02	18.12

**Note:**

- The above Audited standalone and consolidated financial results for the quarter and year ended March 31, 2023 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the company at its meeting held on 29th May 2023. The above results have been audited by the statutory auditors of the Company. The reports of the statutory auditors are unqualified.
- This statement has been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standard) Rules, 2015 (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with the relevant rules there under and in terms of Regulation 33 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and SEBI Circular dated July 5, 2016 and other recognized accounting practices and policies to the extent applicable.
- The Board of Directors have recommended a final dividend @ 10% on Equity Shares of Rs. 5/- each i.e. 50 paise per Equity Share subject to approval of the members of the company in ensuing Annual General Meeting.
- The company operates in business segment viz Agro Chemical, Pharma API & Pharma Formulations.
- During the Financial year 2022-23 the company has incurred Rs. 6.50 Crore on R&D and API Plant.
- The Earning Per Share has been calculated as per Ind AS-33.
- The figures are regrouped in previous year also, wherever considered necessary, to make them comparable.
- The figures of the last quarter ended March 31, 2023 and March 31, 2022 are the balancing figures between audited figures in respect to full financial year and the published unaudited year to date figure upto the period end of the third quarter of the relevant financial year, which were subject to limited review.

For Shivalik Rasayan Limited  
Sd/-  
Rahul Bishnoi  
Chairman

Place: New Delhi  
Date : 29.05.2023





## Shivalik Rasayan Limited

Regd. Office: Village Kolhupani, P. O. Chandanwari, Dehradun - 248007  
(CIN: L24237UR1979PLC005041)  
E-mail: cs@shivalikrasayan.com, Website: www.shivalikrasayan.com

### Extracts of Standalone and Consolidated Audited Financial Results for the Quarter and Year ended on 31.03.2023 (all figures are in Rs. Lacs, except EPS)

Sl. No.	Particulars	Standalone				Consolidated	
		Quarter Ended		Year Ended		Year Ended	
		Audited 31.03.2023	Audited 31.03.2022	Audited 31.03.2023	Audited 31.03.2022	Audited 31.03.2023	Audited 31.03.2022
1	Total income from operations (net)	2481.32	2690.64	9578.14	10129.24	23911.11	21845.78
2	Net Profit/ (Loss) for the period (before tax, exceptional and/ or Extraordinary items)	249.35	519.45	1461.68	1886.22	3166.18	3695.64
3	Net Profit/ (Loss) for the period before tax (after exceptional and/ or Extraordinary items)	330.69	540.22	1510.45	1935.54	2983.30	3425.24
4	Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after exceptional and/ or Extraordinary items)	330.69	540.22	1510.45	1935.54	2983.30	3425.24
5	Total comprehensive income for the period {Comprising Profit/ (loss) for the period (after tax) and other Comprehensive income (after tax)}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Equity Share Capital	724.46	724.46	724.46	724.46	724.46	724.46
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)						
8	Earnings Per Share (of Rs.5/- each) (for continuing and discontinued operation)						
	Basic:	2.28	3.73	10.42	13.69	15.02	18.12
	Diluted:	2.28	3.73	10.42	13.69	15.02	18.12

#### Note:

- The above Audited standalone and consolidated financial results for the quarter and year ended March 31, 2023 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the company at its meeting held on 29th May 2023. The above results have been audited by the statutory auditors of the Company. The reports of the statutory auditors are unqualified.
- This statement has been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standard) Rules, 2015 (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with the relevant rules there under and in terms of Regulation 33 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and SEBI Circular dated July 5, 2016 and other recognized accounting practices and policies to the extent applicable.
- The Board of Directors have recommended a final dividend @ 10% on Equity Shares of Rs. 5/- each i.e. 50 paise per Equity Share subject to approval of the members of the company in ensuing Annual General Meeting.
- The company operates in business segment viz Agro Chemical, Pharma API & Pharma Formulations.
- During the Financial year 2022-23 the company has incurred Rs. 6.50 Crore on R&D and API Plant.
- The Earning Per Share has been calculated as per Ind AS-33.
- The figures are regrouped in previous year also, wherever considered necessary, to make them comparable.
- The figures of the last quarter ended March 31, 2023 and March 31, 2022 are the balancing figures between audited figures in respect to full financial year and the published unaudited year to date figure upto the period end of the third quarter of the relevant financial year, which were subject to limited review.

For Shivalik Rasayan Limited  
Sd/-  
Rahul Bishnoi  
Chairman

Place: New Delhi  
Date : 29.05.2023

**U.P. COOPERATIVE SUGAR FACTORIES FEDERATION LTD**  
9-A, RANA PRATAP MARG, LUCKNOW-226001  
Tel No. (0522) 2612949, (0522)2628310, Fax: (0522) 2627994  
Email: upsugarfed@yahoo.co.in | Website: www.upsugarfed.org

#### Short Term e-Tender Notice

Online e-bids are invited for the sale of different kind of Alcohol (SDS, Ena, matured sprit) from Cooperative Distilleries of U.P to reputed Distilleries of India, bonafide registered users to whom license have been issued by the Excise Department and approved traders holding valid license of Excise department of the concerned State. E-bid can be uploaded upto 6.55 P.M on 07.06.2023 and Technical bid will be opened at 11.30 AM on and Financial bid at 3.30 PM on 08.06.2023. E-bid minimum EMD is Rs 100000/- EMD is variable if quoted quantity is above 01.00 lac BL. The rate at which EMD shall increase will be Rs 1.80 per BL. Total quantity for sale of Alcohol is approximately 39,72,756.50 lac BL and Tender cost Rs. 2000/- + 18% GST (Non refundable). The details for submission of e-bids will be available on the e-tender PORTAL <http://etender.up.nic.in> and also on Federation website [www.upsugarfed.org](http://www.upsugarfed.org) since 29.05.2023 at 6.55 PM. The Managing Director Federation reserves the right to cancel any or all the e-bids without assigning any reason. The decision of the Managing Director shall be final and binding.

UPSUGARFED/GM(AT)/....68.../3C

## E LIMITED

PLC302405

MIDC, Mahape, Navi Mumbai - 400701.  
finance.com / Tel No.: +91-22-49762795  
(LODR) Regulations, 2015]

### Financial Results for the 31st March, 2023

(Amounts in Lakhs)

Quarter ended	Year ended		Previous Year ended	
	December 31, 2022	March 31, 2022		
	Un-Audited	Audited		
	291.89	255.31	1156.69	838.46
	58.2	52.24	237.14	143.17
	58.2	52.24	237.14	143.17
	42.94	39.15	175.99	93.26
	42.94	39.15	175.99	93.26
	695.28	695.28	695.28	695.28
	571.17	463.51	614.99	463.51
	0.62	0.56	2.53	1.34
	0.62	0.56	2.53	1.34

with the Companies Indian Accounting Standards (Ind AS) read with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Regulations, 2015 and other recognised accounting practices and

Committee and approved by the Board of Directors at their (LODR) Regulations. The full format of the said Results are also on the Stock Exchange websites ie www.bseindia.com. which is a single Business Segment in accordance with Ind (Accounting Standards) Rules, 2015

400 Non Convertible Debentures at the issue price of in Quarter under review is Rs. 4,00,00,000.

The Total Outstanding Non Convertible Debenture as on ended to confirm to the figures of the current period.

For Qgo Finance Limited  
Sd/-  
Rachana Singi  
Managing Director  
DIN: 00166508

W  
acc  
com  
its  
Ex  
hend year ended  
cor  
da  
tras  
ass  
ad  
or  
rec  
ma  
bel  
ent  
wit  
act  
an

Corresponding quarter of previous year ended March 31, 2022 (Audited)	Corresponding Year to date figures March 31, 2022 (Audited)
261.28	863.65
(253.16)	(1032.33)
(253.16)	(1032.33)
(298.03)	(1123.28)

## Avasara F

Regd. Office : Bandra Hill View CHS, 3rd

(CIN - L7)